



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

न० 216]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 1979/कार्तिक 14 1901

No. 216]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 1979/KARTIKA 14, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक संख्या-74 ई टी सी (पी एन)/79

विषय — 1979-80 वर्ष के लिए चांदी की वस्तुओं और उत्पादों की
निर्यात नीति।

उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) सशोधन आदेश संख्या
ई० (सी०) प्रो०, 1977/ए० एम० (137) दिनांक 2 नवम्बर, 1979
की धोर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि 10% चांदी की मात्रा से अधिक
मात्रा वाली चांदी की वस्तुओं और उत्पादों के निर्यात की अनुमति इस
सार्वजनिक सूचना की कठिका 4 में दी गई शर्तों के अधीन दी जाए।

3 चांदी के आभूषणों, जिन वस्तुओं को बनाने में या कृषीवाकारी
करने में चांदी या चांदी की जरी का प्रयोग किया गया और 10 %
जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तक चांदी की मात्रा वाले विद्युत और
इलेक्ट्रॉनिकी माल के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस 3 के
अन्तर्गत दी जाएगी। लेकिन इस माल के निर्यात की अनुमति परेषण के
आधार पर नहीं दी जाएगी।

4 तदनुसार निर्यात नीति पुस्तक 1979-80 के नीति विवरण के
पृष्ठ 22 पर क्रम संख्या-77(3) और 77(4) के सामने विद्यमान उप-

प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उप-प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की
जाएगी —

अनुसूची-1

के भाग "ख"

के अनुसार

क्रम संख्या

मद का विवरण

लाइसेंस नीति

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|---|
| 77(3) | चांदी की वस्तुएं और उत्पाद जिनमें चांदी की मात्रा 10% से अधिक हो। | निर्यात की अनुमति निम्न- लिखित शर्तों के अधीन पात्रता के आधार पर दी जाएगी :— |

(क) निर्यातित वस्तुओं में
उपयोग की गई चांदी
की मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय
मूल्य के अनुसार निर्यात
आवेश के जहाज पर्यन्त
निःशुल्क मूल्य दो-तिहाई
से अधिक न हो ;

(ख) निर्यातित निर्यात के एक
महीने के भीतर, निर्या-
तित वस्तु की चांदी की
मात्रा 105% के बराबर
भार की चांदी का आयात
करने का बचन लेता
हो; और

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | (ग) निर्यातक निर्यातित वस्तु के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 75% के बराबर एक बैंक गारन्टी प्रस्तुत करना हो उक्त बैंक गारन्टी आयातक द्वारा उपर्युक्त (ख) की शर्तों का पूर्ण करने के संतुष्टिप्रद साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण पर रद्द कर दी जाएगी। |

- 77(4) निम्नलिखित चांदी की वस्तुएं जिनमें चांदी की मात्रा विनिर्मित उत्पादों के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 10% से अधिक न हो :—
- (1) आभूषण,
 - (2) जिन वस्तुओं को बनाने में या कशीदाकारी करने में चांदी या चांदी की जरी का उपयोग किया गया हो,
 - (3) विद्युत और इलेक्ट्रॉनिकी माल।
- निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 की व्यवस्था के अनुसार दी जाएगी।

सी० वेकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

[मिसिल सख्या-21/1/79-ई०-1 में जारी]

क० प्रतिभा श्रीवास्तवा, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE & CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

New Delhi, the 5th November, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 74-ETC(PN)/79

Subject:—Export Policy of Silver manufactures and products for the year 1979-80.

Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C) O, 1977/AM(137) dated the 2nd November, 1979, on the above subject

2. It has been decided to allow export of manufactures and products of silver with more than 10 per cent Silver content subject to the conditions given in paragraph 4 of this Public Notice.

3. Export of Silver Jewellery, fabrics in the making or embroidery of which silver or silver zari has been used and electrical and electronic goods having silver content not exceeding 10 per cent of the f.o.b. value shall be allowed under OGL-3. However, export of these goods shall not be allowed on consignment basis.

4. Accordingly, the existing sub-entries against S. No. 77(iii) and 77(iv) on page 22 of Policy Statement of Export Policy Book 1979-80 shall be substituted by the following :—

| S. No. as in Part 'B' of Schedule I | Description of the item | Licensing Policy |
|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 77(iii) | Manufactures and products of silver with more than 10 per cent silver content. | Export will be allowed on merits, subject to the conditions that :— (a) the quantum of silver used in the articles exported is in international value terms, not more than 2/3rds of the f.o.b. value of the export order; (b) the exporter undertakes to import, within one month of Export, silver in weight equal to 105% of the silver content of the article exported; and (c) the exporter furnishes a bank guarantee equal to 75% of f.o.b. value of the article exported. The said bank guarantee will be cancelled on production of satisfactory evidence of his fulfilment of condition at (b) above. |
| 77(iv) | Silver manufactures having silver content not exceeding 10 per cent of the f.o.b. value of the manufactured products the following :— (i) Jewellery, (ii) Fabrics in the making or embroidery of which silver or silver zari has been used, (iii) Electrical and electronic goods. | Export will be allowed as provided under OGL-3. |

77(iv)

Silver manufactures having silver content not exceeding 10 per cent of the f.o.b. value of the manufactured products the following :—
(i) Jewellery,
(ii) Fabrics in the making or embroidery of which silver or silver zari has been used,
(iii) Electrical and electronic goods.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports

[Issued from file No. 21/1/79-EI]

Attested

P. SRIVASTAVA,
Deputy Chief Controller of Imports & Exports